



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 22.04.2021

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

थाना खीरी पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र कारतूस सहित अभियुक्त विनोद पुत्र मिश्रीलाल को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अवैध शस्त्र के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 22.04.2021 को थाना खीरी पुलिस द्वारा 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस बरामद कर अभियुक्त विनोद पुत्र मिश्रीलाल निवासी ग्राम सरसंवा थाना व जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में मु0अ0सं0 157/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय भेजा गया।

थाना मैलानी पुलिस द्वारा, आल्टो कार से 120 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर प्रधान प्रत्यासी सहित 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना मैलानी पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान ग्राम मक्कागंज से 01 अदद आल्टो कार में ले जाई जा रही 120 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर जनपद शाहजहापुर से प्रधान प्रत्यासी सहित 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करके चालान मा0 न्यायालय भेजा गया। साथ ही कार को सीज किया गया। गिरफ्तार अभि0 भानू प्रताप सिंह पुत्र बादशाह सिंह उम्र 40 वर्ष नि0 ग्राम चढारी थाना सिथौली जनपद शाहजहापुर दि0 29.04.2021 को जिला शाहजहापुर मे होने वाले चुनाव मे प्रधान पद प्रत्याशी है अल्टो कार नं0 UP80AZ2583 के पीछे शीशे पर अजय प्रताप सिंह यादव वार्ड नं0 40 ददरौल प्रथम से प्रत्याशी , नि0 अध्यक्ष जिला पंचायत का पोस्टर छपा पाया गया।

बरामदगी का विवरण

1. 05 अलग अलग गैलनो मे कुल 120 लीटर अवैध कच्ची शराब
2. अल्टो कार UP80AZ2583

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण

- 1 अभि0 भानू प्रताप सिंह पुत्र बादशाह सिंह उम्र 40 वर्ष नि0 ग्राम चढारी थाना सिथौली जिला शाहजहापुर
- 2.अभि0वीरेन्द्र कुमार पुत्र रामविलास उम्र36 वर्ष नि0 ग्राम चढारी थाना सिथौली जिला शाहजहापुर
- 3.अभि0 राजीव पुत्र संतन लाल उम्र 35 वर्ष नि0 ग्राम चढारी थाना सिथौली जिला शाहजहापुर
4. अभि0 हरसिंह पुत्र छुटकाई सिंह उम्र 45 वर्ष नि0 ग्राम चढारी थाना सिथौली जिला शाहजहापुर

पंजीकृत अभियोग

- 1.मु0अ0सं0-145/2021 धारा 60/63 EX ACT बनाम भानू प्रताप सिंह
- 2.मु0अ0सं0-146/2021 धारा 60/63 EX ACT बनाम वीरेन्द्र कुमार
- 3.मु0अ0सं0-147/2021 धारा 60/63 EX ACT बनाम राजीव कुमार
- 4.मु0अ0सं0-148/2021 धारा 60/63 EX ACT बनाम हरसिंह

पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार थाना मैलानी,खीरी
2. हे0का0 महेन्द्र प्रताप वर्मा थाना मैलानी,खीरी
3. का0 रोबिन सिंह थाना मैलानी,खीरी
4. का0 मौ0 आरिफ थाना मैलानी,खीरी
5. का0 सचिन कुमार थाना मैलानी,खीरी

थाना नीमगांव पुलिस द्वारा अभियुक्त शरवन को अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में अवैध शस्त्र के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपद स्तर पर चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना नीमगांव पुलिस द्वारा अभियुक्त शरवन पुत्र पृथ्वीपाल सिंह निवासी बहदुरापुर जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध चाकू बरामद किया गया है। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में थाना नीमगांव पर मु0अ0सं0 100/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को मा० न्यायालय भेजा गया है।

वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों/वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए निम्नलिखित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

- थाना सिंगाही पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 117/21 धारा 323/354/506 3(1)बी 3(1)बी भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त मुजीब पुत्र अतीकुर्र निवासी वार्ड नं0 6 कस्बा सिंगाही जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 184/21 धारा 368 भादवि में वांछित अभियुक्त किशनचंद पुत्र फूलचन्द निवासी भवानीपुर थाना मोहम्मदी व मु0अ0सं0 185/21 धारा 332/353/323/504/427 भादवि में वांछित अभियुक्ता तारावती पत्नी वैचेलाल निवासी असौवा थाना मोहम्मदी जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **298 लीटर अवैध कच्ची शराब, 03 अवैध शराब भट्टी** बरामद कर **13 अभियुक्तों** को गिरफ्तार किया गया है। विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	थाना	बरामदगी	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1.	थाना मैलानी	120 लीटर	04 अभियुक्त गिरफ्तार
2.	थाना मोहम्मदी	48 लीटर	03 अभियुक्त गिरफ्तार
3.	थाना गोला	60 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
4.	थाना मितौली	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
5.	थाना कोतवाली सदर	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
6.	थाना ईशानगर	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
7.	थाना खीरी	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
	कुल योग	298 लीटर	13 अभियुक्त गिरफ्तार